

काण्वस

(ऐतिहासिक उपन्यास)

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पुस्तक-संग्रह

लेखक

सन्तोष व्यास

भूमिका-लेखक

पद्म-भूषण सूर्यनारायण व्यास

प्रकाशक



आनन्द पुस्तक भवन, वाराणसी